

इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस कृष्णन ने कहा

# फरवरी तक तैयार होगा भारत का स्वदेशी कृत्रिम मेधा माडल

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर (भाषा)।

भारत का स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा कृत्रिम मेधा (एआई) माडल अगले साल फरवरी में होने वाले 'इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट' से पहले तैयार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी सचिव एस. कृष्णन ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कृष्णन ने यहां आयोजित 'इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025' को संबोधित करते हुए कहा कि एअर इंडिया क्षेत्र में देर से प्रवेश करने के बावजूद भारत ने अपनी कंप्यूटिंग अवसंरचना को तेजी से बढ़ाया है और 10 हजार जीपीयू (ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट) के लक्ष्य के मुकाबले 38 हजार जीपीयू की नैतानी की है। उन्होंने कहा कि भारत अपने आधारभूत मॉडल तैयार कर रहा है। वर्ष के अंत तक हमें अपना पहला पूरी तरह भारतीय आधारभूत मॉडल मिलने की उम्मीद है। इंडिया

**सरकार** ने 'इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट 2026' का आयोजन 19-20 फरवरी को करने की घोषणा की है।

एआइ समिट होने तक भारत का स्वायत्त माडल  
पेश करने की योजना है। स्वायत्त एआइ माडल  
भारत में विकसित करना स्वदेशी एआइ तंत्र होगा  
जो पूरी तरह भारतीय डेटा पर प्रशिक्षित होगा और  
देश के भीतर स्थित सर्वरों पर ही संचालित किया  
जाएगा। सरकार ने 'इंडिया एआइ इम्पैक्ट समिट  
2026' का आयोजन 19-20 फरवरी को करने  
की घोषणा की है।

कृष्णन ने कहा कि सरकार एआइ के संभावित प्रभावों को लेकर सतर्क है और ऐसे मंच विकसित करना चाहती है जो समावेशी हों। उन्होंने बताया कि सरकार क्षेत्र-विशिष्ट छोटे

एआइ माडल विकसित करने पर भी जोर दे रही है, जिससे प्रौद्योगिकी का लाभ उन क्षेत्रों तक भी पहुंचे जहां इसकी सबसे अधिक जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार कंप्यूटिंग क्षमता बढ़ा रही है और भारतीय कंपनियों के लिए अधिक जीपीयू उपलब्ध कराएगी।

स्वदेशी जीपीयू के विकास में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर कृष्णन ने कहा कि यह 'इंडिया समीकंडक्टर मिशन 2.0' के तहत सरकार सहितपूर्व लक्ष्यों में से एक होगा, जिस पर वर्तमान में चर्चा चल रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अभिषेक सिंह ने बताया कि भारत का स्वायत्त एआई माडल पूरी तरह भारतीय डेटा सेट पर प्रशिक्षित होगा और भारत में स्थित सर्वरों पर ही संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार 12 घंटे की कंपनियों को समर्थन दे रही है और इनमें से दो के आधारभूत माडल इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएंगे।

## 25 नवंबर को बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, रेकार्ड टूटा

जनसत्ता संवाददाता  
देहरादून 10 अक्टूबर।

सुप्रसिद्ध बन्नीनाथ धाम की यात्रा में कुल  
को लेकर भी श्रद्धालुओं में भारी श्रद्धालु न  
उत्साह बना हुआ है। तीर्थयात्रियों पहुंचे थे  
की बढ़ती संख्या ने पिछले वर्ष का धामीमा  
रेकार्ड तोड़ दिया है। अब तक 14 प्रबंधन  
लाख 53 हजार 827 तीर्थयात्री कीर्तिमान  
भगवान बन्नी विशाल के दर्शन को शासन-प्र

पहुंच चुके हैं, जबकि कपाट बंद होने में अभी डेढ़ माह का समय शेष है। बीते वर्ष 2024 में पूरे यात्राकाल में कुल 14 लाख 35 हजार 341 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंचे थे।

धामी सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन के चलते चारधाम यात्रा कीर्तिमान स्थापित कर रही है। शासन-प्रशासन ने खराब मौसम को

यात्रियों की राह में रोड़ा नहीं बनने दिया। मौसम के मिजाज को देखते हुए सभी यात्रा रूटों और पड़ावों का चार्ज चौबंद व्यवस्थाएँ की गई हैं। यात्रा मार्ग पर वाहनों का आवामनन सुचारू बना रहे, इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर सड़कों को तुरंत खुलवाने के लिए विशेष टीमों की तैनाती के साथ ही जेसीबी की व्यवस्था की गई है। धामों में यात्रियों की

को ठहराने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग में यात्रियों को तत्काल मदद पहुंचाने के लिए एसडीआरएफ जवानों की तैनाती है। अब बर्फबारी के चलते टंड बढने पर अलाव की भी व्यवस्था कर दी गई है। केदारनाथ के साथ ही बद्रीनाथ धाम में भी पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की बढ़ती संख्या ने नये रिकार्ड बनाया है।

THIS IS ONLY AN ADVERTISEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.



(Please scan this QR Code to View the Red Herring Prospectus)



# SHLOKKA

# SHLOKKA DYES LIMITED

**CORPORATE IDENTITY NUMBER: U24299GJ2021PLC124004**

*Incorporated on July 09, 2021 at Ahmedabad, Gujarat*

*Our Company was incorporated on July 09, 2021, as a Private Limited Company as "Shlokka Dyes Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Ahmedabad. Subsequently, pursuant to a Special Resolution of our Shareholders passed in the Extra-Ordinary General Meeting held on October 08, 2024 our Company was converted from a Private Limited Company to Public Limited Company and consequently, the name of our Company was changed to "Shlokka Dyes Limited" and a Fresh Certificate of Incorporation consequent to Conversion was issued on November 11, 2024 by the Registrar of Companies, Central Registration Centre. The Corporate Identification Number of our Company is U24299GJ2021PLC124004. For further details, please refer the chapter titled "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no.130 of the Red-herring Prospectus.*

**Registered Office:** Plot No-C/54, GIDC, Saykha, Saran, Vagra, Bharuch-392140, Gujarat, India  
**Tel No.:** +91 90334 41760; **Website:** [www.shlokkadyes.com](http://www.shlokkadyes.com); **E-Mail:** [cs@shlokkadyes.com](mailto:cs@shlokkadyes.com)  
**Contact Person:** Mr. Siddharth Gajra, Company Secretary and Compliance Officer

**PROMOTERS: VAIBHAV SHAH AND SHIVANI RAJPUROHIT**

## THE ISSUE

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 63,50,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH OF SHLOKKA DYES LIMITED ("SDL" OR THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING TO ₹[•] ("THE ISSUE"), OF WHICH 3,24,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹[•] WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.e., NET ISSUE OF 60,26,400 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10/- EACH AT A PRICE OF ₹[•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO [•] LACS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 29.66% AND 28.15% RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" BEGINNING ON PAGE NO. 218 OF THE RED HERRING PROSPECTUS.

## CORRIGENDUM

**PRICE BAND REVISED FROM ₹ 90 – ₹ 95 TO ₹ 88- ₹ 91 PER EQUITY SHARES\***  
**ISSUE CLOSING DATE EXTENDED TO OCTOBER 14, 2025 (TUESDAY)\***

\*This is with reference to Red herring Prospectus dated September 23, 2025 filed with Registrar of Companies, Ahmedabad ("ROC"). BSE LIMITED (BSE SME) and Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in relation to the Issue. The price band per equity shares was Rs. 90/- to Rs. 95/-, which is revised to Rs. 88/- to Rs. 91/- per equity share. And the issue period has been extended by three working days, i.e. the last day for submitting application by all applicants shall be Tuesday, October 14, 2025. You are requested to note that the company has decided to extend the issue period due to revision in the Issue Price. All capitalized term used in the notice shall, unless the context otherwise requires, has the meaning ascribed in the Red herring prospectus. Investors may please note the Red herring Prospectus, the Abridged Prospectus and the statutory advertisement issued by our Company shall be amended accordingly to this extent.

**PRICE BAND: ₹ 88/- TO ₹ 91/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH.**  
**THE FLOOR PRICE IS 8.8 TIMES OF THE FACE VALUE AND**  
**THE CAP PRICE IS 9.1 TIMES OF THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.**

**THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR March 31, 2025 AT THE FLOOR PRICE IS 13.23 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 13.68 TIMES.**  
**BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER**  
**MINIMUM APPLICATION OF 1200 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1200 EQUITY SHARES THEREAFTER**

## PROPOSED LISTING

The Equity Shares offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the SME Platform of BSE Limited ("BSE SME"), in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle Approval Letter dated September 05, 2025 from BSE Limited for using its name in this offer document for listing of our shares on the BSE EmERGE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the BSE Limited.

**DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI")**

Since the Issue is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Offer Document was not filed with SEBI. In terms of the SEBI ICDR Regulations, SEBI will not issue any observations on the Offer Document. Hence, there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire "SEBI Disclaimer Clause" on page 210 of the Red herring Prospectus.

**DISCLAIMER CLAUSE OF BSE LIMITED (DESIGNATED STOCK EXCHANGE)**

"It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by BSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the "Disclaimer Clause of the BSE" on page 211 of the Red herring Prospectus."

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
 <p><b>INTERACTIVE FINANCIAL SERVICES LIMITED</b>  <b>Address:</b> Office No. 508, Fifth Floor, Priviera, Nehru Nagar, Ahmedabad - 380015, Gujarat, India  <b>Tel No.:</b> 079 4908 8019  <b>(M) +91-98980 85647</b>  <b>Web Site:</b> <a href="http://www.ifnservices.in">www.ifnservices.in</a>  <b>Email:</b> <a href="mailto:mbd@ifnservices.in">mbd@ifnservices.in</a>  <b>Investor Grievance Email:</b> <a href="mailto:info@ifnservices.in">info@ifnservices.in</a>  <b>Contact Person:</b> Mr. Pradip Sandhir  <b>SEBI Reg. No.:</b> INM000012856</p>	 <p><b>BIGSHARE SERVICES PRIVATE LIMITED</b>  <b>CIN:</b> U99999MH1994PTC076534  <b>Address:</b> Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093  <b>Telephone:</b> 022-62638200  <b>Email:</b> <a href="mailto:ipo@bigshareonline.com">ipo@bigshareonline.com</a>  <b>Investor Grievance Email:</b> <a href="mailto:investor@bigshareonline.com">investor@bigshareonline.com</a>  <b>Website:</b> <a href="http://www.bigshareonline.com">www.bigshareonline.com</a>  <b>Contact Person:</b> Mr. Asif Sayyed  <b>SEBI registration number:</b> INR000001385</p>	 <p><b>SHLOKKA DYES LIMITED</b>  <b>Mr. Siddharth Gajra</b>  <b>Company Secretary and Compliance Officer</b>  <b>Address:</b> Plot No-C/54, GIDC, Saykha, Saran, Vagra, Bharuch-392140, Gujarat, India  <b>Telephone:</b> +91 90334 41760  <b>E-mail:</b> <a href="mailto:cs@shlokkadyes.com">cs@shlokkadyes.com</a>  <b>Website:</b> <a href="http://www.shlokkadyes.com/">http://www.shlokkadyes.com/</a></p> <p><small>Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.</small></p>

On behalf of Board of Directors  
**FOR, SHLOKKA DYES LIMITED**  
**Sd/-**  
**Mr. Siddharth Gajra**  
**Company Secretary & Compliance Officer**

**Place:** Ahmedabad  
**Date:** October 10, 2025

**Disclaimer:** Shlokka Dyes Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the RHP with the Registrar of Companies, Ahmedabad on September 23, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in), website of the Company at [www.shlokkadyes.com](http://www.shlokkadyes.com), the website of the BRLM to the Issue at [www.ifnservices.in](http://www.ifnservices.in), the website of BSE SME at <https://www.bseindia.com/markets/publicissues/DisplayIPO>, respectively. Any potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the RHP including the section titled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Red Herring Prospectus

कृत्रिम मेधा की कई खूबियां,  
जोखिम भी : दूरसंचार सचिव

जनसत्ता ब्यूरो  
नई दिल्ली, 10 अक्टूबर।

दूरसंचार सचिव नीरज मित्तल ने शुक्रवार को कहा, कृत्रिम मेधा की कई खूबियाँ हैं, लेकिन जोखिम भी हैं। हम देख पा रहे हैं कि कैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) उपकरण डीप फेक, वायस क्लोनिंग, वित्तीय धोखाधड़ी, वायस सिग्नेचर को दफ़्तार करने और किसी भी झूठी पहचान स्थापित करने के लिए वीडियो बनाने जैसे कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में हमें बहुत सतर्क रहना होगा। जैसे-जैसे हम 5 जी में 6जी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें कृत्रिम मेधा की अहमियत भी बढ़ती जा रही है।

कृत्रिम मेधा पर आधारित (एआइ फार गुड) सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर दूरसंचार सचिव मि्तल ने कहा, इंडियायार एआइ मिशन के जरिए एक विश्वसनीय, समावेशी और मानव-केंद्रित कृत्रिम मेधा पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ा रहा है। दूरसंचार मानकीकरण नीति विभाग (टीएसबी) के निदेशक एवं प्रमुख के उपा-निदेशक बिलेल जमैसी ने कृत्रिम मेधा

संचार राज्यमंत्री ने विजेताओं  
को किया सम्मानित

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 10 अक्टूबर।

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डा. पेम्मासांनी चंद्रशेखर ने इंडिया मोबाइल काँग्रेस (आइएमसी)-25 पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए देश के व्यापारिक समुदाय से नवाचार, सहयोग और उद्देश्य-संचालित नेतृत्व के जरिए देश के आर्थिक परिवर्तन के नेतृत्व का आह्वान किया उन्होंने इंडिया मोबाइल काँग्रेस के पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया।

प्रौद्योगिकियों के सार्थक सामाजिक प्रभाव तय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नैतिक ढाँचों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कृत्रिम मेधा के दुरुपयोग, डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा में कमजोरी जैसे गंभीर मुद्दों के समाधान के लिए वैश्विक साझेदारी पर जोर दिया।

नवीन सहकारी अधिनियम  
लाएगी राजस्थान सरकार

જયપુર, 10 ઓક્ટોબર (ભાષા) ।

राजस्थान सरकार सहकारी समितियों में क्रियाओं को सरल बनाने, अनियमितताओं पर नियंत्रण एवं व्यवसाय वृद्धि के लिए नवीन सहकारी अधिनियम लागू। आधिकारिक प्रवधान के अनुसार राज्य सरकार समितियों तथा सामगज के हित में सहकारी कानून को अधिक आसानी बनाते हुए नवीन सहकारी अधिनियम लागू जा रही है। प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम में ऐसे कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं, जिसे आमजन का सहकारी समितियों पर भरोसा और अधिक प्रज्वल होगा।

सरकारी बैंकों के ईडी पद  
के लिए आवेदन दे सकेंगे  
निजी क्षेत्र के उम्मीदवार

નર્મદા દિલ્લી, 10 ઓક્ટોબર (ભાષા) ।

सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीप प्रबंधन सेवाओं को निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए खोल दिया है। एसबीआई में प्रबंध निदेशक (एमडी) का चार पदों में एक पद निजी क्षेत्र के उम्मीदवारों और सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों के लिए खुला है।

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. THERE WILL BE NO PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES IN THE UNITED STATES.

## PUBLIC ANNOUNCEMENT

# AJWA PROJECTS LIMITED

CIN: U45200GJ2011PLC064399

Our company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name and style of "Ajwa Projects Private Limited" in accordance with the Companies Act, 1956 pursuant to a Certificate of Incorporation issued by Registrar of Companies, Dadra and Nagar Haveli, Gujarat on March 12, 2011, with the corporate identification number (CIN) being U45200GJ2011PTC064399. Subsequently, our company was converted into Public Limited Company under the Companies Act, 2013 and the name of our Company was changed to "Ajwa Projects Limited" vide a fresh Certificate of Incorporation consequent upon conversion from Private Company to Public Company dated June 27, 2025, bearing Corporate Identification Number U45200GJ2011PLC064399, issued by the Registrar of Companies, Central Processing Centre.

**Registered Office:** M/71, Silver Spring Near Bhulka Bhavan School, Adajan, Surat- 395009, Gujarat, India;

**Tel. No.:** + 0261-2786786; **Email:** info@ajwaprojects.com; **Website:** www.ajwaprojects.com;

**Contact Person:** Mr. Jatin Mansukhbhai Vaghasiya, Company Secretary & Compliance Officer

## THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. MOHAMMAD KHURSHID ALAM KHAN, MRS. ZARINABEGUM KHURSHID ALAM KHAN AND MR. RIYAZ RAFIQ PADELA



INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO 18,75,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF AJWA PROJECTS LIMITED (THE "COMPANY" OR THE "ISSUER") AT AN OFFER PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING ₹ UP TO [•] LAKHS ("THE OFFER"). THE OFFER COMPRISES FRESH ISSUE OF UP TO 15,00,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 3,75,000 EQUITY SHARES BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS COMPRISING; UP TO 1,87,500 EQUITY SHARES BY MR. MOHAMMAD KHURSHID ALAM KHAN, UP TO 1,87,500 EQUITY SHARES BY MRS. ZARINABEGUM KHURSHID ALAM KHAN (COLLECTIVELY THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDER"), ("OFFER FOR SALE TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). OF WHICH UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. NET OFFER OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE AGGREGATING UP TO ₹ [•] LAKHS (THE "NET OFFER"). THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE [•] % AND [•] % RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO SECTION TITLED "TERMS OF THE OFFER" BEGINNING ON PAGE 238 OF THE DRAFT PROSPECTUS.

### THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10 AND THE OFFER PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE

Any decision to invest in the Equity Shares described in the Draft Prospectus may only be taken after a Prospectus has been filed with the ROC and must be made solely on the basis of such Prospectus as there may be material changes in the Prospectus from the Draft Prospectus. The Equity Shares, when offered through the Prospectus, are proposed to be listed on SME Platform of BSE.

For details of the share capital and capital structure and the names of the signatories to the Memorandum of Association and the number of shares subscribed by them of the Company, please refer to the chapter "Capital Structure" beginning on page no. 63 of the Draft Prospectus. The liability of the members of our Company is limited.

For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please refer to the chapter "History and Certain Corporate Matters" beginning on page no. 154 of the Draft Prospectus.

LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <p><b>Wealth Mine Networks Limited</b> 215 B, Manek Centre, P N Marg, Jamnagar-361 001, Gujarat, India. <b>Tel No.:</b> +91 77788 67143/ 82007 08527 <b>CIN:</b> U93000GJ1995PLC025328 Email: info@wealthminenetworks.com <b>Website:</b> www.wealthminenetworks.com <b>Contact Person:</b> Mr. Jay Trivedi/Miss Shabnam Khureshi <b>Investor Grievance E-mail:</b> complaints@wealthminenetworks.com <b>SEBI Registration No:</b> INM000013077</p>	 <p><b>KFIN Technologies Limited</b> Selenium Tower-B, Plot No 31 and 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500032, Telangana, India. <b>Tel No.:</b> +91 40 6716 2222 <b>Email:</b> ajwa.ipo@kfintech.com <b>Website:</b> www.kfintech.com <b>Contact Person:</b> Mr. M. Muri Krishna <b>Investor Grievance E-mail:</b> einward.ris@kfintech.com <b>SEBI Registration No:</b> INR000000221</p>

All capitalized terms used and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Draft Prospectus.

**For, Ajwa Projects Limited**

On behalf of Board of Directors

Sd/-

**Mr. Mohammad Khurshid Alam Khan**

**Managing Director**

**Date:** October 11, 2025

**Place:** Surat

**Ajwa Projects Limited** is proposing, subject to applicable regulatory and statutory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, an initial public offering of its Equity Shares and has filed a Draft Prospectus with SME Platform of BSE. The Draft Prospectus is available on the website of BSE at [www.bsesme.com](http://www.bsesme.com), the website of the Company at [www.ajwaprojects.com](http://www.ajwaprojects.com) and the Lead Manager at [www.wealthminenetworks.com](http://www.wealthminenetworks.com). Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and are requested to refer to the section titled "Risk Factors" beginning on page no. 28 of the Draft Prospectus. Potential investors should not rely on the Draft Prospectus filed with BSE for making any investment decision.

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. This Announcement does not constitute an offer of Securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933, as amended, or an exemption from registration. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the company and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statement. There will be no public offering of the Equity Shares in the United States.